

## अब के बरस तुझे धरती की रानी

अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे,  
अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे,  
अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे,  
अब के बरस  
ये दुनिया तो फानी है हो,  
बहता सा पानी है हो,  
तेरे हवाले ये ज़िंदगानी,  
ये ज़िंदगानी कर देंगे,  
अब के बरस.....

दुनिया की सारी दौलत से,  
इज़्जत हम को प्यारी,  
मुट्टी में किस्मत है अपनी,  
हम को मेहनत प्यारी,  
मिट्टी की कीमत का जग में,  
कोई रतन नहीं है,  
ज़िल्लत के जीवन से बदतर,  
कोई कफ़न नहीं है,

देश का हर दीवाना अपने,  
प्राण चीर कर बोला,  
बलिदानों के खून से अपना,  
रंग लो बसंती चोला,  
अब के हमने जानी है हो,  
अपने मन में ठानी है हो,  
हमलावरो की खतम कहानी,  
खतम कहानी कर देंगे,  
अब के बरस.....

सुख सपनों के साथ हज़ारों,  
दुख भी तू ने झेले,  
हंसी खुशी से भीगे फागुन,  
अब तक कभी ना खेले,  
चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफ़साने,  
जलती जाती शमा जलते जाते हैं परवाने,

फिर भी हम ज़िंदा हैं,  
अपने बलिदानों के बाल पर,  
हर शहीद फरमान दे गया,  
सीमा पर जल जल कर,  
यारों टूट भले ही जाना,  
लेकिन कभी ना झुकना,

कदम कदम पर मौत मिलेगी,  
लेकिन फिर भी कभी ना रुकना,

बहुत से लिया अब ना सहेंगे,  
सीने भड़क उठे है,  
नस नस में बिजली जागी है,  
बाजू फड़क उठे हैं,  
सिंहासन की खाई करो,  
जुल्मों के ठेकेदारों,

देश के बेटे जाग उठे,  
तुम अपनी मौत निहारो,  
अंगारों का जश्न बनेगा,  
हर शोला जागेगा,  
बलिदानों की इस धरती से,  
हर दुश्मन भागेगा,

हमने कसम निभानी है,  
देनी हर कुर्बानी है,  
हमने कसम निभानी है,  
देनी हर कुर्बानी है,  
अपने सरों की,  
अपने सरों की अंतिम निशानी भर देंगे,  
अब के बरस.....

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/9250/title/ab-ke-baras-tujhe-dharti-ki-rani-kar-denge>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |